

गोपनीय लिफाफा में मतपत्र का चिन्हांकन

यदि आप एडवांस वोटिंग के दौरान अथवा चुनाव के दिन टेक्नोलॉजी से युक्त मतदान केंद्र पर मतदान कर रहे हैं तो आपको एक गोपनीय लिफाफे में मतपत्र प्राप्त होगा।

1. वही गोपनीय लिफाफा लें जिसमें मतदान स्क्रीन के पीछे एक मतपत्र हो।
2. गोपनीय लिफाफे से मतपत्र बाहर निकालें और जिसे आप वोट देना चाहते हैं उस उम्मीदवार के नाम के सामने सफ़ेद गोले में X चिन्हित करें।
3. चिन्हित किया हुआ मतपत्र गोपनीय लिफाफे में वापस रख दें और इसे मतदान सारिणी बनाने वाली मशीन पर बैठे व्यक्ति को दें।
4. जब तक कि वे मतदान सारिणी बनाने वाली मशीन में आपका मतपत्र संकलित न कर लें आप इंतजार करें।

यदि आपने अपने मतपत्र को चिन्हित करने में कोई ग़लती की है तो मतपत्र को गोपनीय लिफाफे के अंदर रखें और इसे मतदान अधिकारी को वापस कर दें। वे आपको इसकी जगह दूसरा मतपत्र चिन्हित करने के लिए देंगे।

तह किये हुए मतपत्र का चिन्हांकन

यदि आप एडवांस वोटिंग के दौरान अथवा चुनाव के दिन बिना टेक्नोलॉजी वाले मतदान केंद्र पर मतदान कर रहे हैं तो आपको एक तह किया हुआ मतपत्र प्राप्त होगा।

1. मतदान स्क्रीन के पीछे वही तह किया हुआ मतपत्र लें।
2. उम्मीदवारों के नाम देखने के लिए मतपत्र को खोलें।
3. जिसे आप वोट देना चाहते हैं उस उम्मीदवार के नाम के सामने सफ़ेद गोले में X चिन्हित करें।
4. चिन्हित किये हुए मतपत्र को पुनः तह करें और इसे मतदान अधिकारी को मतपत्र के पीछे उनके प्रारंभिक सत्यापन के लिए वापस कर दें।
5. मतपत्र के एक बार सत्यापित हो जाने के बाद यह मतपत्र पेटी में जमा करने के लिए आपको वापस दे दिया जाएगा।

यदि आपने अपने मतपत्र को चिन्हित करने में कोई ग़लती की है तो इसे पुनः तह करें और मतदान अधिकारी को वापस कर दें। वे आपको इसकी जगह दूसरा मतपत्र चिन्हित करने के लिए देंगे।

राइट-इन मतपत्र का चिन्हांकन

यदि आप अपने रिटर्निंग ऑफिस में मतदान कर रहे हैं तो आपको एक लिखा हुआ मतपत्र प्राप्त होगा।

1. तह किये हुए मतपत्र को मतदान स्क्रीन के पीछे ले जाएँ।
2. दिए हुए खाली स्थान में जिसे आप वोट देना चाहते हैं उस उम्मीदवार का पहला और अंतिम नाम लिखें।
3. चिन्हित किये हुए मतपत्र को पुनः तह करें और इसे मतदान अधिकारी को मतपत्र के पीछे उनके प्रारंभिक सत्यापन के लिए वापस कर दें।

4. मतपत्र के एक बार सत्यापित हो जाने के बाद यह मतपत्र पेटी में जमा करने के लिए आपको वापस दे दिया जाएगा।

यदि आपने अपने मतपत्र को चिन्हित करने में कोई गलती की है तो इसे पुनः तह करें और मतदान अधिकारी को वापस कर दें। वे आपको इसकी जगह दूसरा मतपत्र चिन्हित करने के लिए देंगे।